

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I  
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88 ]  
No. 88]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 1998/चैत्र 27, 1920  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 1998/CHAITRA 27, 1920

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1998

सं० 69-प्रेस/98.—राष्ट्रपति श्री चिदम्बरम् सुब्रह्मण्यम् को भारत  
रत्न सम्मान प्रदान करते हैं।

गोपालकृष्ण गांधी, राष्ट्रपति के सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 1998

No. 69-Pres/98.—The President is pleased to confer  
the award of Bharat Ratna on Shri Chidambaram  
Subramaniam.

GOPALKRISHNA GANDHI, Secy. to the President

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1998

सं० 70-प्रेस/98.—राष्ट्रपति निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान करते  
हैं:—

पद्म विभूषण

डा० (श्रीमती) लक्ष्मी सहगल (सार्वजनिक जीवन), कानपुर, उत्तर प्रदेश।  
श्री नानी अर्देशिर पालखीवाला (सार्वजनिक मामले-विधि), मुम्बई,  
महाराष्ट्र।

डा० (कुमारी) उषा एच० महेता (समाज-कार्य), मुम्बई, महाराष्ट्र।

श्री वाल्टर सिसुलु (सार्वजनिक मामले), जोहानेसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका।

पद्म भूषण

डा० भीष्म साहनी (साहित्य-हिन्दी), नई दिल्ली।

प्रो० देबी प्रसाद चट्टोपाध्याय (साहित्य एवं शिक्षा-दर्शनशास्त्र), कलकत्ता,  
पश्चिम बंगाल।

श्री जी० माधवन नाथर (विज्ञान एवं इंजीनियरी-अंतरिक्ष अनुसंधान),  
तिरुवनन्तपुरम, केरल।

कर्मल गुरबक्श सिंह बिल्लन (सार्वजनिक जीवन), शिवपुरी, मध्य प्रदेश।

डा० गुरुकुमार भालचंद्र परुलकर (चिकित्सा-हृदय रक्त बाहिका एवं  
शल्य चिकित्सा), मुम्बई, महाराष्ट्र।

श्री हरी कृष्ण दुआ (साहित्य-पत्रकारिता), नई दिल्ली।

डा० (सुश्री) हेमलता गुप्ता (चिकित्सा-तंत्रिका विज्ञान), नई दिल्ली।

श्री के० एम० माल्यु (साहित्य-पत्रकारिता), काट्टायम, केरल।

डा० लक्ष्मीमल सिंघवी (सार्वजनिक मामले-न्यायशास्त्र), नई दिल्ली।

डा० मालीगडल रामकृष्ण गिरीनाथ (चिकित्सा-हृदय विज्ञान), चेन्नई,  
तमिलनाडु।

डा० पनंगीपल्ली वेणुगोपाल (चिकित्सा-हृदय, वक्त्र एवं रक्तवाहिका शल्य  
चिकित्सा), नई दिल्ली।

डा० राजेन्द्र सिंह परोदा (विज्ञान एवं इंजीनियरी-पौध प्रजनन), नई दिल्ली।

श्री सत्यपाल डोंग (सार्वजनिक मामले), अमृतसर, पंजाब।

प्रो० शिवरामकृष्ण चन्द्रशेखर (विज्ञान तथा इंजीनियरी-लिथियम क्रिस्टल  
रिसर्च), बंगलौर, कर्नाटक।

डा० ठकुपि राजगोपालाचार अनंतमूर्ति (साहित्य-कन्नड़), मैसूर, कर्नाटक।

प्रो० वैदीस्वरन् राजारामन् (विज्ञान एवं इंजीनियरी-कम्प्यूटर), बंगलौर, कर्नाटक।

डा० वेम्पटि चिन्न सत्यग (नृत्य-कुष्ठीपुङ्गि), चेन्नई, तमिलनाडु।

श्री विट्ठल महादेव तारकुण्डे (सार्वजनिक मामले-न्यायशास्त्र), नोएडा, उत्तर प्रदेश।

### पद्म श्री

प्रो० आदित्य नारायण पुरोहित (विज्ञान-वनस्पति विज्ञान), गढ़वाल।

श्री अनिल काकोडकर (नाभिकीय इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी), मुम्बई, महाराष्ट्र।

आन्टणि कारडिवल पडियारा (समाज-कार्य), कोचि, केरल।

प्रो० ब्रजेन्द्रनाथ गोस्वामी (साहित्य-कला इतिहासकार), चंडीगढ़।

श्री छेवांग फुंसाग (सिविल सेवा), जम्मू-व-कश्मीर।

श्रीमती दीपालि बरठाकुर (लोक गायक-असमिया), गुवाहाटी, असम।

प्रो० गुरदयाल सिंह (साहित्य-पंजाबी), फरीदकोट, पंजाब।

सुश्री कान्ता त्यागी (समाज-कार्य), पश्चिम निमाड, मध्य प्रदेश।

श्री कोंगन्नाइलातपम इबेमथा शर्मा उर्फ अभिरामशाबा शर्मा (संगीत-गायन), इम्फाल, मणिपुर।

श्री कृष्णराव गणपतराव साबले उर्फ शाहीर साबले (रंगमंच अभिनय), मुम्बई, महाराष्ट्र।

श्री कुंज बिहारी मेहेर (कला-इकातबुनकर), बारगढ़, उड़ीसा।

श्रीमती ललसाड, प्वाली साईलो (साहित्य-मिजो), आइजौल, मिजोरम।

सिस्टर लियोनार्ड आंजेला कासिराभि (समाज-कार्य) धारवाड, कर्नाटक।

आनरेरी कैप्टन लीलाराम (खेलकूद-कुश्ती), दादरी, हरियाणा।

डा० मनमोहन अस्तावर (बागवानी), बंगलौर, कर्नाटक।

श्री नारायण गंगाराम सुर्वे (साहित्य-मराठी), मुम्बई, महाराष्ट्र।

श्री नौशाद इस्माइल पदमसी (उद्योग), मुम्बई, महाराष्ट्र।

श्री ओट्टाप्लाक्कल नीलकंठ बेलु कुरूप (साहित्य-काव्य एवं गीत), तिरुवनन्तपुरम, केरल।

श्री पी० आई० मुहम्मद कुट्टी (मम्मूटी) (फिल्म अभिनय), चेन्नई, तमिलनाडु।

श्री परगट सिंह पवार (खेलकूद-हाकी), जालंधर, पंजाब।

श्री प्रधान शम्भू शरण (इलेक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार), नई दिल्ली।

प्रो० (श्रीमती) प्रियन्वदा महान्ति-हेजमाडी (विज्ञान-प्राणिविज्ञान), भुवनेश्वर, उड़ीसा।

श्री रलते वानलोमा (समाज-कार्य, पत्रकारिता एवं साहित्य), आइजौल, मिजोरम।

श्री रमेश कृष्णन (खेलकूद-लॉन टेनिस), चेन्नई, तमिलनाडु।

प्रो० रणजीत रॉय चौधरी (चिकित्सा-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान), नई दिल्ली।

श्री शम्भु नाथ खजुरिया (समाज-कार्य), पुंछ, जम्मू-व-कश्मीर।

श्रीमती शान्ता सिन्हा (समाज-कार्य), सिकन्दराबाद, आन्ध्रप्रदेश।

श्रीमती शैलि विल्सन (खेलकूद-एथलेटिक), केरल।

श्री सूर्यदेवरा रामचन्द्र राव (सिविल सेवा), सूरत, गुजरात।

श्री उष्यलयु श्रीनिवास (संगीत-मंडोलिन), चेन्नई, तमिलनाडु।

श्री विजय कुमार सारस्वत (विज्ञान एवं इंजीनियरी-रक्षा प्रौद्योगिकी), हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश।

श्रीमती जोहरा सैगल (नृत्य एवं रंगमंच), नई दिल्ली।

गोपालकृष्ण गांधी, राष्ट्रपति के सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 1998

No. 70-Pres/98.—The President is pleased to make the following awards:—

### PADMA VIBHUSHAN

Dr. (Smt.) Lakshmi Sahgal (Public life), Kanpur, Uttar Pradesh.

Shri Nani Ardeshir Palkhivala (Public Affairs—Law), Mumbai, Maharashtra.

Dr. (Miss) Usha H. Mehta (Social Work), Mumbai, Maharashtra.

Shri Walter Susulu (Public Affairs), Johannesburg, South Africa.

### PADMA BHUSHAN

Dr. Bhasham Sahni (Literature—Hindi), New Delhi.

Prof. Debi Prasad Chattopadhyaya (Literature & Education—Philosophy), Calcutta, West Bengal.

Shri G. Madhavan Nair (Science & Engineering—Space Research), Thiruvananthapuram, Kerala.

Colonel Gurbakhsh Singh Dhillon (Public Life), Shivpuri, Madhya Pradesh.

Dr. Gurukumar Bhalchandra Parulkar (Medicine—Cardiovascular and Thoracic Surgery), Mumbai, Maharashtra.

Shri Hari Krishan 'Sua (Literature—Journalism), New Delhi.

Dr. (Miss) Hem Lata Gupta (Medicine—Neurology), New Delhi.

Shri K.M. Mathew (Literature—Journalism), Kottayam, Kerala.

Dr. Laxmi Mall Singhvi (Public Affairs—Jurisprudence), New Delhi.

Dr. Maligal Ramkrishna Girinath (Medicine—Cardiology), Chennai, Tamil Nadu.

Dr. Panangipalli Venugopal (Medicine—Cardio Thoracic & Vascular Surgery), New Delhi.

Dr. Rajendra Singh Paroda (Science & Engineering—Plant Breeding) New Delhi.

Shri Satyapal Dang (Public Affairs), Amritsar, Punjab.

Prof. Sivaramakrishna Chandrasekhar (Science & Engineering—Liquid Crystal Research), Bangalore, Karnataka.

Dr. Udupi Rajagopalachar Ananthamurthy (Literature—Kannada), Mysore, Karnataka.

Prof. Vaidyeswaran Rajaraman (Science & Engineering—Computer), Bangalore, Karnataka.

Dr. Vempati Chinna Satyam (Dance—Kuchipudi), Chennai, Tamil Nadu.

Justice Shri Vithal Mahadev Tarkunde (Public Affairs—Jurisprudence), NOIDA, Uttar Pradesh.

#### PADMA SHRI

Prof. Aditya Narain Purohit (Science—Botany), Garhwal, Uttar Pradesh.

Shri Anil Kakodkar (Nuclear Engineering & Technology), Mumbai, Maharashtra.

Antony Cardinal Padiyara (Social Work), Kochi, Kerala.

Prof. Brijinder Nath Goswamy (Literature—Art Historian), Chandigarh.

Shri Chewang Phunsog (Civil Service), Jammu & Kashmir.

Smt. Dipali Borthakur (Folk Singer—Assamese), Guwahati, Assam.

Prof. Gurdial Singh (Literature—Punjabi), Faridkot, Punjab.

Ms. Kanta Tyagi (Social work), West Nimad, Nimad, Madhya Pradesh.

Shri Kongbrailatpam Ibomcha Sharma alias Abhiramshaba Sharma (Musim-Vocal), Imphal, Manipur.

Shri Krishnarao Ganpatrao Sable alias Shahir Sable (Theatre Acting), Mumbai, Maharashtra.

Shri Kunja Bihari Meher (Art—Ikat Weaver), Bargarh, Orissa.

Smt. Lalsangzuali Sailo (Literature—Mizo), Aizwal, Mizoram.

Sister, Leonarda Angela Casiraghi (Social work), Dharwad, Karnataka.

Hon. Captain Lila Ram (Sports—Wrestling), Dadri, Haryana.

Dr. Manmohan Attavar (Horticulture), Bangalore, Karnataka.

Shri Narayan Gangaram Surve (Literature—Marathi), Mumbai, Maharashtra.

Shri Naushad Ismail Padamsee (Industry), Mumbai, Maharashtra.

Shri Ottaplakkal Neelakanta Velu Kurup (Literature—Poetry & Lyrics), Thiruvananthapuram, Kerala.

Shri P. I. Mohammed Kutty (Mammootty) (Film Acting), Chennai, Tamil Nadu.

Shri Pargat Singh Powar (Sports-Hockey), Jalandhar, Punjab.

Shri Pradhan Shambu Saran (Electronics & Telecommunications), New Delhi.

Prof. (Smt.) Priyambada Mohanty-Hejmadi (Science—Zoology), Bhubaneswar, Orissa.

Shri Ralte Vanlawma (Social Work, Journalism & Literature), Aizwal, Mizoram.

Shri Ramesh Krishnan (Sports—Lawn Tennis), Chennai, Tamil Nadu.

Prof. Ranjit Roy Chaudhury (Medicine—Medical Education & Research), New Delhi.

Shri Shambu Nath Khajuria (Social Work), Poonch, Jammu & Kashmir.

Smt. Shantha Sinha (Social Work), Secunderabad, Andhra Pradesh.

Smt. Shiny Wilson (Sports—Athletic), Kerala.

Shri Suryadevara Ramachandra Rao (Civil Service), Surat, Gujarat.

Shri Uppalapu Shrinivas (Music—Mandolin), Chennai, Tamil Nadu.

Shri Vijay Kumar Saraswat (Science & Engineering—Defence Technology), Hyderabad, Andhra Pradesh.

Smt. Zohra Segal (Dance & Theatre), New Delhi.

GOPALKRISHNA GANDHI, Secy. to the President

